



COVID-19 महामारी के दौरान ब्रैम्पटन में विक्टोरिया डे 2020

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (12 मई, 2020) – इस वर्ष, विक्टोरिया डे (Victoria Day), सोमवार, 18 मई को है।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से और हमारे निवासियों व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, सिटी हॉल (City Hall) और रेक्रिएशन एंड कम्युनिटी सेंटर (Recreation and Community Centres) और ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) ब्रांचों सहित, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी फैसिलिटीज, अगले नोटिस तक बंद रहेंगी।

फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services), ट्रैफिक सर्विसिज (Traffic Services), बाइ-लॉ एन्फोर्समेंट (By-Law Enforcement), रोड ऑपरेशंस (Road Operations), पी.ओ.ए. कोर्ट्स (POA Courts) और सिक्योरिटी सर्विसिज (Security Services) सहित, सभी महत्वपूर्ण सेवाएं, हमारे समुदाय के सहयोग के लिए पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

किसी भी सवालों के लिए निवासी, 311 पर या 905.874.2000 (ब्रैम्पटन के बाहर से) पर फोन कर सकते हैं, ब्रैम्पटन 311 (Brampton 311) ऐप (जो ऐप स्टोर (App Store) या Google Play (गूगल प्ले) पर उपलब्ध है) का उपयोग कर सकते हैं, www.311brampton.ca पर जा सकते हैं या 311@brampton.ca पर ईमेल कर सकते हैं। हम सिटी ऑफ ब्रैम्पटन या रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के किसी भी मुद्दों के लिए, 24/7 उपलब्ध हैं। इन मुद्दों में शामिल हैं, COVID-19 से संबंधित सवाल, जैसे टैक्स स्थगित करने, शारीरिक दूरी, पार्कों व फैसिलिटीज के बंद होने के बारे में सवाल। अधिक जानकारी के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं।

विक्टोरिया डे का जश्न – ऑनलाइन मनाएं!

अपने घरों में ही विक्टोरिया डे का जश्न मनाने में, ब्रैम्पटन वासियों की मदद करने के लिए, सिटी ने परिवार-अनुकूलित गतिविधियों से भरपूर ऑनलाइन केंद्र बनाया है। इसमें स्थानीय रेस्टोरेंट्स से भोजन ले जाने, और पटाखों के आभासी (वर्चुअल) डिस्प्ले जैसे विकल्प होंगे। यह स्नेप्डहब (SnapdHUB) द्वारा संचालित है।

निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे विक्टोरिया डे को, एक्सपीरियंस ब्रैम्पटन (Experience Brampton) के नेतृत्व वाले, हे ब्रैम्पटन! लेट्स ईट! (Hey Brampton! Let's Eat!) अभियान के हिस्से के तौर पर, स्थानीय रेस्टोरेंट्स से भोजन ऑर्डर करें। अपने बैकयार्ड में, अपने अगले लॉन, अपने अगले दरवाजे पर, या घर में किसी और जगह पर पिकनिक जैसा माहौल बनाकर, भोजन करने के अपने अनुभव को यादगार बनाएं। सोशल मीडिया पर इस पिकनिक की तस्वीर साझा करें और हमारे शारीरिक दूरी कायम रखते हुए, मनाए जाने वाले जश्न का हिस्सा बनने के लिए #BramptonTogether लिखें।



पूरे ओनटैरियो में, असली वातावरण में डिजीटल तौर पर (ऑगमेंटेड रिएल्टी) पेश किए जाने वाले पटाखों के डिस्प्ले के रोमांचक अनुभव के लिए पड़ोसियों से जुड़ें! पटाखों का आभासी डिस्प्ले निवासियों के लिए, विक्टोरिया डे के पटाखों के पारंपरिक डिस्प्ले का सुरक्षित विकल्प पेश करता है। आभासी शो, रात 8 बजे ऑनलाइन शुरू होगा। पटाखों के लिए उल्टी गिनती 7:50 बजे शुरू हो जाएगी। भाग लेने वाले रेस्टोरेंट्स और पटाखों के डिस्प्ले के लिंक के लिए, www.brampton.ca/victoriaday पर जाएं।

पटाखों से सुरक्षा

विक्टोरिया डे, साल में उन चार छुट्टियों में से एक है, जब निजी प्रॉपर्टी पर, सिटी से अनुमति लिए बिना, छोटी-रेंज के पटाखों की अनुमति होती है। बाइ-लॉ के अंतर्गत, कैंनेडा डे (Canada Day), दीवाली (Diwali) और नए साल से पहले की शाम (New Year's Eve) को भी पटाखे चलाने की अनुमति होती है।

छोटी-रेंज के पटाखे ऐसे पटाखे हैं, जो चलाए जाने पर 3 मीटर (10 फुट) से कम दूरी तक जाते हैं (उदाहरण के लिए, अनार, चक्कर, ज़मीनी चक्कर, फुलझड़ियां)। अन्य सभी रॉकेट किस्म में पटाखों पर ब्रैम्पटन में पाबंदी है। सिटी निवासियों को याद दिलाती है कि पटाखों को गली में, पगडंडियों पर, सिटी के पार्कों के अंदर या म्युनिसिपल या स्कूल की प्रॉपर्टीज पर चलाने की अनुमति नहीं है।

निजी प्रॉपर्टी पर छोटी-रेंज के पटाखे चलाते समय, निवासियों के लिए इन सुरक्षा सावधानियों का पालन करना आवश्यक है:

- अपने पास पानी का कंटेनर या पानी से भरी कोई होज़ लाइन रखें, जो पटाखे बुझाने के लिए उपलब्ध हो।
- फुलझड़ियों के अलावा, कभी भी पटाखों को अपने हाथों में पकड़कर न चलाएं या जलते हुए पटाखों को हाथ में न पकड़ें
- कभी भी पटाखों को अन्य लोगों पर न फेंकें या उनकी तरफ करके न चलाएं।
- फुलझड़ियां चलाने के बाद, उनका निपटारा करने से पहले, पूरी तरह से ठंडा होने के लिए उन्हें पानी के कंटेनर में डाल दें।
- सभी पटाखों का निपटारा करने से पहले, उन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें।

हर साल, पटाखा विक्रेताओं के लिए, पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस धारक होने के लिए सिटी से ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। इस साल, किसी ट्रेनिंग का आयोजन नहीं किया गया और कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। यदि निवासी देखें कि ब्रैम्पटन में स्टोर्स पर या कहीं और पटाखे बेचे जा रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे, सर्विस ब्रैम्पटन (Service Brampton) को ब्रैम्पटन 311 (Brampton 311) मोबाइल ऐप द्वारा, [ऑनलाइन](http://www.brampton.ca) या 311 पर फोन करके इसकी रिपोर्ट करें। निवासियों को तब भी सर्विस ब्रैम्पटन को संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है, यदि वे पाबंदी वाले पटाखों का उपयोग करने के बारे में, या COVID-19 के कारण पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक एकत्रीकरण के बारे में चिंतित हों।



COVID-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

COVID-19 की प्रतिक्रिया में ऐसे महत्वपूर्ण नियम और रेग्युलेशन हैं, जिन्हें हमारे समुदाय को, सुरक्षित रहने के लिए ध्यान में रखना चाहिए।

- पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health), पील (Peel) के निवासियों को सलाह देती है कि यदि वे बाहर जाएं, तो भीड़ से बचने के लिए दूरी कायम रखें। निवासियों को एक्सरसाइज करते समय घर के पास ही रहना चाहिए और सफर को जरूरी कारणों तक ही सीमित रखना चाहिए। जिन निवासियों को कोई डॉक्टरी समस्या हो, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो या जिनकी उम्र 70 साल से अधिक हो, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए और केवल अकेले एक्सरसाइज करने के लिए या जरूरी आवश्यकताओं के लिए ही घर से बाहर जाना चाहिए।
- ब्रैम्पटन में सभी 500+ पार्क, प्लेग्राउंड और पार्कों में अन्य स्थान, बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्क, पिकनिक शेल्टर, आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज और आउटडोर फिटनेस उपकरण (स्पोर्ट्स फील्ड्स, बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट्स), रेक्रिएशन सेंटर और आसपास के स्थान, और सिटी की फैसिलिटीज के पार्किंग लॉट्स, अगले नोटिस तक जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं। निवासियों से अनुरोध है कि यदि उन्हें पता चले कि कोई इसका पालन नहीं कर रहा है, तो वे 905.874.2111 पर रिपोर्ट करें।
- हालांकि ट्रेल्स इस समय खुली रहेंगी, फिर भी आपके लिए हमेशा, अन्य लोगों से (जो आपके घर में नहीं रहते हैं) 2.0 मीटर दूर रहना आवश्यक है। ट्रेल्स के नक्शों के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।
- पांच से अधिक लोग इकट्ठे होने से बचें – प्रांत द्वारा लागू किए गए एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट (Emergency Management and Civil Protection Act) के अंतर्गत, अब ऐसा करने पर प्रतिबंध है।
- कृपया प्रयोग किए गए फेसमार्स्को, सुरक्षा वाले दस्तानों और अन्य घरेलू हेल्थकेयर वेस्ट को, एक बैग में डालकर, कूड़े में डालें।
- अब, ब्रैम्पटन COVID-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) के अंतर्गत जुर्माने रखे गए हैं। शारीरिक दूरी के उपायों का पालन न करने के प्रत्येक अपराध के लिए, लोगों को कम से कम \$500 और अधिक से अधिक \$100,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। निवासियों से अनुरोध है कि यदि उन्हें पता चले कि कोई इसका पालन नहीं कर रहा है, तो वे 311 पर फोन करें।
- हम अपने समुदाय पर होने वाले COVID-19 के प्रभावों को समझते हैं। हम यह भी समझते हैं कि यह कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल और तनाव वाला समय है। हमने समुदाय को सहयोग करने के लिए विशेष टास्क फोर्सिज की शुरुआत की है। इसमें



शामिल है, आर्थिक सहयोग, बुजुर्गों को सहयोग, युवाओं को सहयोग और सबसे कमज़ोर लोगों को सहयोग। टास्क फोर्सिज (Task Forces) के बारे में और उनसे संपर्क करने के बारे में अधिक जानकारी www.brampton.ca/covid19 पर उपलब्ध है।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), विक्टोरिया डे को कुछ रूट्स के रद्द होने के साथ, रविवार के घटाए गए शेड्यूल पर चलेगी। निम्नलिखित रूट्स पर बसें चलेंगी:

1 क्वीन (1 Queen)	11 स्टील्स (11 Steeles)	50 गोर रोड (50 Gore Road)
2 मेन (2 Main)	14 टोरब्रैम (14 Torbram)	52 मैकमर्ची (52 McMurphy)
3 मैकलॉग्लिन (3 McLaughlin)	15 ब्रैमली (15 Bramalea)	115 पियर्सन एयरपोर्ट (115 Pearson Airport)
4 चिंगकूज़ी (4 Chinguacousy)	18 डिक्सी (18 Dixie)	501 ज़ूम क्वीन (501 Züm Queen)
5 बोवेअर्ड (5 Bovaird)	23 सैंडलवुड (23 Sandalwood)	502 ज़ूम मेन (502 Züm Main)
7 केनेडी (7 Kennedy)	30 एयरपोर्ट रोड (30 Airport Road)	511 ज़ूम स्टील्स (511 Züm Steeles)

टर्मिनल्स पर ग्राहक सेवा (Customer Service) काउंटर बंद हैं। ब्रैमली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में टर्मिनल की बिल्डिंग का समय, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। संपर्क केंद्र (Contact Centre) खुला है। सवारियां सहायता के लिए, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, 905.874.2999 पर फोन कर सकती हैं।

अधिक बार सफाई और रोगाणु मुक्त करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय बसों को हर 24 घंटों में रोगाणु मुक्त किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और रोगाणु मुक्त किया जा रहा है। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

रूट और शेड्यूल के बारे में जानकारी के लिए, 905.874.2999 पर फोन करें या www.bramptontransit.com पर जाएं। रियल-टाइम में अगली बस के बारे में जानकारी के लिए, अपने स्मार्टफोन से या किसी अन्य मोबाइल डिवाइस से nextride.brampton.ca पर जाएं। ट्रिप प्लानिंग के अन्य टूल्स के लिए, www.triplinx.ca पर या Google Maps (गूगल मैप्स) पर जाएं।

ब्रैम्पटन रेक्रिएशन

सभी रेक्रिएशन प्रोग्रामिंग और किराए पर जगह लेकर होने वाले सभी कार्यक्रम, अगले नोटिस तक रद्द कर दिए गए हैं। क्रेडिट्स अपने आप खातों में जमा हो जाएंगे। कृपया अधिक जानकारी के लिए reconnects@brampton.ca पर संपर्क करें।



रेक एट होम (Rec At Home) के साथ, पूरे शरीर की एक्सरसाइज करते हुए स्वस्थ रहें, सीखें कि ओरिगेमी हार्ट कैसे बनाते हैं, अपने सुंदर लिखावट (कैलिग्राफी) कौशलों का अभ्यास करें। यह ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation) के स्टाफ द्वारा प्यार से तैयार की गई, कई प्रकार की आभासी प्रोग्रामिंग है! www.brampton.ca/recreation पर रेक एट होम प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त करें।

ब्रैम्पटन लाइब्रेरी

ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) की सभी ब्रांच, अगले नोटिस तक बंद कर दी गई हैं। वीकेंड मनोरंजन के लिए, स्ट्रीमिंग फिल्में देखें और म्यूजिक सुनें या ईबुक (eBook) पढ़ें! हमारे डिजिटल उत्पादों, प्रोग्रामों और सेवाओं के बारे में और जानकारी के लिए, www.bramptonlibrary.ca पर जाएं या info@bramlib.on.ca पर ईमेल करें।

ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज

ब्रैम्पटन एनिमल शेल्टर (Brampton Animal Shelter), विक्टोरिया डे वीकेंड वाले, रविवार और सोमवार को बंद रहेगा।

एनिमल कंट्रोल (Animal Control), सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक और शनिवार तथा रविवार और छुट्टियों वाले दिनों को, सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक चालू रहेगा। वे केवल नीचे दिए कामों से संबंधित कॉल्स का ही जवाब देंगे:

- बीमार/ज़ख्मी/हिंसक घरेलू जानवर या जंगली जानवर का पिक अप
- हिंसक जानवर
- घर से बाहर निकले कुत्ते को बचाना
- कुत्ते के काटने की जांच
- बांधकर रखे आवारा कुत्तों का पिक अप
- मरे हुए जानवरों का पिक अप

इन घंटों के बाद, एनिमल कंट्रोल केवल एमरजेंसी कॉल्स का ही जवाब देगा।



Service and Information Update

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca